

# प्रधानमंत्री विद्यार्थियों से ऑनलाइन करेंगे ‘परीक्षा पे चर्चा’

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 18 फरवरी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वार्षिक संवाद कार्यक्रम ‘परीक्षा पे चर्चा’ के तहत मार्च में विद्यार्थियों के अलावा अभिभावकों और शिक्षकों के साथ ऑनलाइन माध्यम से संवाद करेंगे। चर्चा के दौरान सवाल पूछने वालों का चयन प्रतियोगिता के जरिए होगा। कोरोना महामारी के मद्देनजर इस साल परीक्षा पे चर्चा का आयोजन आनलाइन माध्यम से किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुव्हरा को इस आशय की जानकारी देते हुए बताया कि नौवीं से बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ यह चर्चा उनकी परीक्षाएं शुरू होने से पहले मार्च में होगी।

निशंक ने ट्वीट किया कि विद्यार्थियों के परीक्षा तनाव को कम कर उन्हें प्रेरणा एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री का संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का चौथा संस्करण मार्च 2021 में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण इस साल चर्चा ऑनलाइन होगी। चर्चा के लिए पंजीकरण गुव्हरा को शुरू हो गया। यह 14 मार्च को समाप्त होगा।

इस बीच प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि

लोगों की मांग पर परीक्षा पे चर्चा 2021 में इस बार अभिभावकों और शिक्षकों की भी शामिल किया गया है। मैं विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से बड़ी संख्या में परीक्षा पे चर्चा 2021 में हिस्सा लेने की अपील करता हूं। परीक्षा पे चर्चा का जिक्र करते हुए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि प्रधानमंत्री पहले भी विद्यार्थियों के साथ ऐसा संवाद करते रहे हैं। इस बार अभिभावकों और शिक्षकों के साथ भी संवाद होगा। उन्होंने बताया कि चर्चा के दौरान सवाल पूछने के लिए विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों का चयन प्रतियोगिता के जरिए होगा और इसका आयोजन ‘माईजीओवी.इन’ पर होगा।

निशंक ने बताया कि विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिता के संबंध में पांच विषय रखे गए हैं। इनमें परीक्षा त्योहार की तरह मनाएं, अनुलग्न भारत यात्रा एवं खोज, यात्रा शुरू होती है और समाप्त होती है, आकांक्षा केवल कुछ बनने की नहीं बल्कि कुछ करने की और आभारी रहें विषय शामिल हैं। शिक्षकों के लिए ‘आनलाइन शिक्षा का प्रावधान : इसके लाभ और विस्तार’ विषय रखा गया है जबकि अभिभावकों के लिए ‘आपके शब्द, आपके बच्चों की दुनिया बनाने वाले होते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करें, बच्चों को दोस्त बनाएं’ विषय रखा गया है।

## पुदुचेरी में संक्रमण के 20 नए मामले

पुदुचेरी, 18 फरवरी (भाषा)।

केंद्र शासित क्षेत्र पुदुचेरी में कोरोना संक्रमण के 20 नए मरीज सामने आए। यहां

संक्रमण के मामले बढ़कर 39,526 हो गए। गुव्हरा सुबह दस बजे समाप्त हुए 24 घंटे में 1,711 नमूनों की जांच की गई और 23 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।

| <div><div><span><span></span></span></div><span><b>BGIL FILMS &amp; TECHNOLOGIES LIMITED</b></span></div>   |   |                                       |                                       |                               |
|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Regd. Office:- 1203, Vijaya Building 17, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001<br>Corp Office:- 8-66, Sector-60, Noida-201301.<br>CIN L65993DL1989PLC035572  |   |                                       |                                       |                               |
| Tel: +91-120-4227792, Fax: +91-120-4227791, Website: <a href="http://www.bgilfilms.com">www.bgilfilms.com</a>   |   |                                       |                                       |                               |
| Extract of Un-audited Quarterly Financial Results for the Quarter ended 31st December, 2020 <span>(Rs. in Lacs)</span>  |   |                                       |                                       |                               |
| 5. No.  | Particulars   | (Un-audited) Quarter Ended 31.12.2020 | (Un-audited) Quarter Ended 31.12.2019 | Audited Year Ended 31.03.2020 |
| 1   | Total income from operations  | 60.27                                 | 4.45                                  | 33.23                         |
| 2   | Net Profit / (Loss) for the period before tax (before Exceptional Items and Extraordinary items)  | (6.91)                                | (15.82)                               | (65.84)                       |
| 3   | Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional Items and Extraordinary items)   | (6.91)                                | (15.82)                               | (65.84)                       |
| 4   | Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional Items and Extraordinary items)  | (5.33)                                | (6.98)                                | (51.02)                       |
| 5   | Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax) | (5.33)                                | (5.44)                                | (56.01)                       |
| 6   | Equity Share Capital  | 1132.76                               | 1132.76                               | 1132.76                       |
| 7   | Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous Year.                                      | 0                                     | 0                                     | 0                             |
| 8   | Earning Per Share of Rs. 10 each.   |                                       |                                       |                               |
|   | 1. Basic:   |                                       |                                       |                               |
|   | 2. Diluted:   | (0.05)                                | (0.05)                                | (0.49)                        |
| <b>Note:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results for quarter and nine months ended 31st December, 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the results are available on the Stock Exchange website <a href="http://www.bseindia.com">www.bseindia.com</a> and company website <a href="http://www.bgilfilms.com">www.bgilfilms.com</a></li></ol> |   |                                       |                                       |                               |
| <div> <div>FOR BGIL FILMS &amp; TECHNOLOGIES LIMITED</div> <div>Sd/-</div> <div><b>Aarti Bhatia</b></div> <div>(DIRECTOR)</div> </div>  |   |                                       |                                       |                               |
| Place: NOIDA<br>Date: 13th February, 2021   |   |                                       |                                       |                               |

## महत्वपूर्ण सूचना

सर्वसंबंधित को सूचित किया जाता है कि रेलवे ने निम्नांकित स्पेशल रेलगाड़ियों को उनके सामने अंकित तिथियों से चांदलोडिया स्टेशन पर नया उहराव प्रदान करने का निर्णय लिया है और साथ यह भी सूचित किया जाता है कि परिचालनिक कारणों से इन रेलगाड़ियों का आम्बलीरोड पर प्रदान किया गया उहराव वापस लिया जाता है :–

**चांदलोडिया स्टेशन पर इन रेलगाड़ियों के आगमन/प्रस्थान का समय निम्नवत होगा**

| रेलगाडी सं. एवं नाम                                | आगमन         | प्रस्थान     | प्रमावी तिथि      |
|--|--------------|--------------|-------------------|
| <b>04312 मुज – बरेली आला हजरत एक्सप्रेस स्पेशल</b> | <b>22:01</b> | <b>22:06</b> | <b>19.02.2021</b> |
| <b>04311 बरेली – मुज आला हजरत एक्सप्रेस स्पेशल</b> | <b>04:21</b> | <b>04:26</b> | <b>20.02.2021</b> |
| <b>09263 पोरबंदर – दिल्ली सराय रोहिल्ला स्पेशल</b> | <b>03:38</b> | <b>03:43</b> | <b>20.02.2021</b> |
| <b>09264 दिल्ली सराय रोहिल्ला – पोरबंदर स्पेशल</b> | <b>00:14</b> | <b>00:19</b> | <b>22.02.2021</b> |
| <b>09269 पोरबंदर – मुजफ्फरपुर जं. स्पेशल</b>       | <b>03:38</b> | <b>03:43</b> | <b>19.02.2021</b> |
| <b>09270 मुजफ्फरपुर जं. – पोरबंदर स्पेशल</b>       | <b>05:15</b> | <b>05:20</b> | <b>21.02.2021</b> |

**नोट: रेलगाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर सामाजिक दूरी व सैनिटाइज़ेशन आदि सविधत कोविड–19 से संबंधित राज्य एवं केन्द्र सरकार के सभी निर्णयों और सभी सावधानियों का पालन करना अनिवार्य है।**

रेलयात्रियों से अनुरोध है कि उपरोक्त रेलगाड़ियों के मार्ग में पड़ने वाले स्टेशनों एवं उनकी विस्तृत समय–सारणी की जानकारी के लिए रेलमदद हेल्पलाइन नं. 139 पर सम्पर्क करें अथवा रेलवे की वेबसाइट <https://enquiry.indianrail.gov.in> अथवा NTES App देखें।

**रेल मदद**

**हेल्पलाइन नं. 139**



**उत्तर रेलवे**

हमें फ़ॉलो करें

रेलमदद वेबसाइट देखें :

[www.railmadad.indianrailways.gov.in](http://www.railmadad.indianrailways.gov.in)

रेलमदद ऐप डाउनलोड करें

साहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

## JAIPRAKASH ASSOCIATES LIMITED

सोआइडन : L14106UP1995PLC019017

पंजीकृत कार्यालय : सेक्टर 128, नोएडा-201 304, उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष : +91 (120 ) 2470800

कॉर्पोरेट कार्यालय : जेए हाउस , 63, बसन्त लोक, बसन्त विहार, नई दिल्ली-110057

दूरभाष : +91(11) 49828500, फैक्स : +91(11) 26145389 वेबसाइट : [www.jalindia.com](http://www.jalindia.com),

ई-मेल : [jal.investor@jalindia.co.in](mailto:jal.investor@jalindia.co.in)

### सदस्यों के लिए पोस्टल बैलैट सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 (“नियमावली”) भारतीय प्रतिष्ठित और विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 (एलओडीआर) के विनियमन 44 तथा कोविड–19 महामारी के कारण समय-समय पर कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी छूटों तथा स्पष्टीकरणों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 को धारा 108 एवं 110 के अनुपालन में कम्पनी ने प्रस्तावित प्रस्ताव पर सदस्यों की सहमति/ असहमति प्राप्त करने के लिए ई–मेल द्वारा सूचना तिथि 15 फरवरी, 2021 का प्रेषण 21 नवम्बर, 2020 को पूरा कर लिया है।

कृपया ध्यान रखें कि:

क) यह सूचना ऐसे सभी सदस्यों को भेजी गई है जिनके नाम शुक्रवार, 12 फरवरी, 2021 (कट–ऑफ तिथि) को कार्यावधि की समाप्ति पर डिफॉजिटेरीज अर्थात नेशनल सिन्धुग्रेटीज डिफॉजिटेरी लिमिटेड (“एनएसडीएल”) सेन्ट्रल डिफॉजिटेरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (“सीडीएसएल”) से प्राप्त सदस्यों के रजिस्टर/लाभभोगी स्वामियों को सूची में शामिल हैं।

ख) सदस्यों/लाभभोगी स्वामियों के माताधिकार की गणना कट–ऑफ तिथि को सदस्यों के नाम में पंजीकृत शेयरों के प्रदत्त मूल्य पर की जाएगी तथा कोई भी व्यक्ति जो कट–ऑफ तिथि को सदस्य/लाभभोगी स्वामी नहीं हैं, वे इस सूचना को केवल जानकारी के लिए देखें।

ग) अंतिम एमसीए परिपत्र सं. 39/2020 दिनांक 31.12.2020 के सन्दर्भ में, कम्पनी अपने उन सभी सदस्यों के पास पोस्टल बैलट सूचना केवल ई–मेल के माध्यम से भेज दी है जिनके ई–मेल पते कम्पनी अथवा डिफॉजिटेरी/डिफॉजिटेरी भागीदारों के पास पंजीकृत थे और इस सूचना में प्रस्तावित प्रस्ताव पर सदस्यों की सहमति या असहमति केवल ई–वोटिंग प्रणाली से ली जायेगी।

इलेक्ट्रॉनिक रूप से यह सूचना प्राप्त करने तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने में ऐसे सदस्यों को सक्षम बनाने के लिए कम्पनी ने नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार विशेष व्यस्था की है।

i) जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, वे [jal.postalballot@jalindia.co.in](mailto:jal.postalballot@jalindia.co.in) पर अधोलिखित विवरण उपलब्ध कराते हुए ईमेल भेजें: पूरा नाम: कट-ऑफ तिथि को धारित शेयरों की सं., फोनिये संख्या एवं शेयर प्रमाण पत्र संख्या (यदि शेयर भौतिक पद्धति में धारित से; डीपी आईडी एवं क्लाइड आईडी (यदि शेयर डिमैट पद्धति में धारित हो); ईमेल आईडी;

ii. ईमेल की प्राप्ति पर सदस्य इस पोस्टल बैलैट हेतु ई–वोटिंग में सक्षम होने के लिए यूजर आईडी तथा पासवर्ड के साथ सूचना तथा ई–वोटिंग प्रक्रिया की सॉफ्ट कॉपी प्राप्त करेंगे। किसी प्रकार की पृष्ठताछ के लिए सदस्य [jal.postalballot@jalindia.co.in](mailto:jal.postalballot@jalindia.co.in) पर लिखें।

iii. स्पष्ट किया जाता है कि ईमेल पते के स्थाई पंजीकरण के लिए सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक धारिता के मामले में अपने संबंधित डिफॉजिटेरी पार्टिसिपेटर्स के पास तथा भौतिक धारिता के मामले में कम्पनी के सचिवालयी विभाग, सेक्टर–128, नोएडा–201304, उ.प्र., फोन नं. +91(120)2470800 पर अथवा ईमेल [jal.investor@jalindia.co.in](mailto:jal.investor@jalindia.co.in) पर अपना ईमेल पता पंजीकृत कराना होगा।

घ) पोस्टल बैलैट में प्रस्तावित प्रस्ताव पर केवल रिमोट ई–वोटिंग द्वारा मतदान होगी। यह कम्पनी [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) पर सेन्ट्रल डिफॉजिटेरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (“सीडीएसएल”) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से मतदान की सुविधा उपलब्ध करा रही है। ई–वोटिंग की प्रक्रिया पोस्टल–बैलैट सूचना की टिप्पणी 11 में दी गई है। निर्देशों के साथ पोस्टल बैलैट सूचना कंपनी को वेबसाइट <http://www.jalindia.com/statutorycomm.html> तथा सेन्ट्रल डिफॉजिटेरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड की ई–वोटिंग वेबसाइट <http://www.evotingindia.com/PageDownload.jsp> पर प्रकाशित है तथा सदस्यों से पोस्टल बैलैट प्राप्ति की अंतिम तिथि अर्थात रविवार, 21 मार्च, 2021 (5.00 बजे अप. आईएसटी) तक उसे वेबसाइट पर रहेगी।

ड.) रिमोट ई–वोटिंग शनिवार, 20 फरवरी, 2021 को 9.00 बजे पूर्वा. आईएसटी में शुरू होगी तथा रविवार, 21 मार्च, 2021 को 5.00 बजे अप. आईएसटी में बंद होगी। उसके बाद मतदान के लिये सीडीएसएल द्वारा ई–वोटिंग पद्धति निष्क्रिय कर दी जायेगी।

च) नियमावली तथा एमसीए सक्मुलर्स के साथ पठित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्वच्छ तथा पारदर्शी तरीके से रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से पोस्ट वैलैट का संचालन करने के लिये कम्पनी ने श्री अशोक त्यागी, कार्यरत कम्पनी सचिव (सी.पी. नं. 73222) को पर्यवेक्षक तथा श्री सुभाष सी. सेतिया, कार्यरत कम्पनी सचिव (सी.पी. नं. 23681) को वैकल्पिक पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।

छ) पोस्ट बैलैट परिणाम की घोषणा सेक्टर 128, नोएडा–201304, उ.प्र. भारत में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में 23 मार्च, 2021 को 12.30 अप. या उससे पूर्व में की जायेगी। उसे कम्पनी के वेबसाईट [www.jalindia.com/statutorycomm.html](http://www.jalindia.com/statutorycomm.html) के साथ ही साथ ही सीडीएसएल के वेब–लिंक <https://www.evotingindia.com/noticeResults.jsp> पर भी स्थापित किया जायेगा। इन परिणामों को बीएसई एवं एनएसई की भी सूचित किया जायेगा।

ज) इस पोस्टल बैलैट पर मतदान के संदर्भ में कोई भी प्रश्न अथवा समस्याएँ ई–मेल [jal.postalbalot@jalindia.co.in](mailto:jal.postalbalot@jalindia.co.in) पर कम्पनी सचिव को भेजी जा सकती है तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान से संबंधित श्री लितिन कुण्ड्रे (022–23058738) अथवा श्री मेहबूब लखानी (022–23058543) अथवा श्री राकेश डालवी (022–23058542), प्रबंधक एसडीएसएल, ए विंग, 25वां तल, मेराथन फ्यूचरुक्स, मफतलाल मिल कम्पाउण्ड्स, एन.एम.जोशी मार्ग, लोअर परल (ईस्ट), मुम्बई–400013 को भेजी जा सकती है अथवा उसे [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) पर भेजें।


बोर्ड के आदेश से

जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के लिये

एम एम सब्बल

संयु. अध्यक्ष एवं कम्पनी सचिव

सदस्यता सं. एफसीएस 3538

|   |   |   |
|---|---|---|
| <div><div></div><div>एसबीएफसी फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड<br/>(तात्कालिक स्थाई बिजनेस फिनकेण्टिइ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड)</div></div>   |   |   |
| पंजीकृत कार्यालय: युनित नं. 103, प्रथम तल, सी एंड बी स्क्वायर, रंगम कॉम्प्लैक्स,<br>ग्राम चकला, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (ईस्ट), मुम्बई-400059.  |   |   |
| कच्चा सूचना (प्रातभात हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(2) के अनुसार)   |   |   |
| <p>जैसा कि, निम्नलिखित परामर्शदात्री के प्रातिभूतकरण एवं पुनर्नमूना तथा प्रातिभूत हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत एसबीएफसी फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रातिभूत हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना जारी कर नीचे वर्णित अक्षधारकों/सह-अक्षधारकों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।</p> <p>अक्षधारक/सह-अक्षधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा अक्षधारक/सह-अक्षधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित तिथि को अपोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संघति का कच्चा कर लिया है।</p> <p>विशेष रूप से अक्षधारकों तथा आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संघति का व्यवसाय न करें तथा इन संघतियों का किसी भी तरह का व्यवसाय एसबीएफसी फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।</p> |   |   |
| अक्षधारकों का नाम एवं मांग सूचना तिथि   | सम्पत्ति (चौ) का विवरण एवं कच्चा की तिथि  | कच्चा सूचना में मांग की गई राशि (रु.)   |
| 1. हीरा लाल प्रजापत, 2) ममनी बाई, दोनों निवासी: मोदी बल्लभ नगर, माधवती की पोल के निकट, उदयपुर, राजस्थान-313602  | पंचायत- मोदी पंचायत समिति-भिण्डर, जिला-उदयपुर, राजस्थान में स्थित सम्पत्ति खसरा नं. 1844, माप 640 वर्ग फीट का सभी भाग तथा हिस्सा जिसकी चौहदी है: पूर्व: ताली पश्चिम: सरला, उत्तर: श्री घनश्याम का मकान, दक्षिण: श्री मोती लाल का मकान | 31- जनवरी, 2021 को रु. 6,17,455/- (रुपए छह लाख सत्तरह हजार चार सौ पचवन मात्र) |
| मांग सूचना तिथि: 7 सित. 2020  | कच्चा की तिथि: 16 फरवरी, 21   |   |
| अक्षधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।  |   |   |
| स्थान : उदयपुर  |   |   |
| तिथि : 19/02/2021   |   |   |
| हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी  |   |   |
| एसबीएफसी फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड   |   |   |



BHARATIYA GLOBAL INFOMEDIA LIMITED

Regd. office:-1203, Vijaya Building, 17, Barakhamba Road, Connaught Place New Delhi-110001  
Corp Office:- 8-66, Sector-60, Noida-201301. CIN: L74999DL1994PLC062967  
Tel: +91-120-4227792, Fax: +91-120-4227791, Website: [www.bgil.in](http://www.bgil.in)

Extract of Un-Audited Quarterly Financial Results

For the Quarter ended 31st December, 2020

(Rs. in Lacs)

| S. No. | Particulars   | Un-Audited Standalone Results |                          |                       | Un-Audited Consolidated Results |                          |                       |
|--------|---|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|        |   | Quarter Ended 31.12.2020      | Quarter Ended 31.12.2019 | Year Ended 31.03.2020 | Quarter Ended 31.12.2020        | Quarter Ended 31.12.2019 | Year Ended 31.03.2020 |
| 1      | Total income from operations  | 115.66                        | 6.79                     | 1044.68               | 115.66                          | 6.79                     | 1044.68               |
| 2      | Net Profit / (Loss) for the period before tax (before Exceptional Items and Extraordinary Items)  | (11.05)                       | (57.16)                  | (79.79)               | (9.08)                          | (55.49)                  | (76.64)               |
| 3      | Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional Items and Extraordinary items)   | (11.05)                       | (57.16)                  | (79.79)               | (9.08)                          | (55.49)                  | (76.64)               |
| 4      | Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional Items and Extraordinary items)  | (11.05)                       | (60.12)                  | (99.88)               | (9.08)                          | (58.45)                  | (96.72)               |
| 5      | Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax) | (11.05)                       | (59.66)                  | (102.21)              | (9.08)                          | (57.99)                  | (99.05)               |
| 6      | Equity Share Capital  | 1584.31                       | 1584.31                  | 1584.31               | 1584.31                         | 1584.31                  | 1584.31               |
| 7      | Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous Year.                                      | 0                             | 0                        | 0                     | 0                               | 0                        | 0                     |
| 8      | Earning Per Share of Rs. 10 each.   |                               |                          |                       |                                 |                          |                       |
|        | 1. Basic:   |                               |                          |                       |                                 |                          |                       |
|        | 2. Diluted:   | (0.07)                        | (0.38)                   | (0.65)                | (0.06)                          | (0.37)                   | (0.63)                |

Note:

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results for quarter and nine months ended 31st December, 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the results are available on the Stock Exchange website [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and company website [www.bgilfilms.com](http://www.bgilfilms.com)

FOR Bharatiya Global Infomedia Limited

Sd/-

Rakesh Bhatia

(Chairman cum Managing Director)

Place: NOIDA

Date: 12th February, 2021

PRE-OFFER ADVERTISEMENT IN ACCORDANCE WITH REGULATION 18(7) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED, FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

**ART NIRMAN LIMITED**

Registered Office: 410, JBR Arcade, Science City Road, Sola, Ahmedabad 380060 Gujarat, India.  
CIN: L45200GJ2011PLC064107 | Tel: +91 8866044099 | Email Id: [cs@artnirman.com](mailto:cs@artnirman.com) | Website: [www.artnirman.com](http://www.artnirman.com)

This Advertisement (“Pre-Offer Advertisement”) is being issued by Hem Securities Limited (the “Manager to the offer”), on behalf of Mr. Ashokkumar Raghuram Thakker, referred to as the Acquirer (“Acquirer”) along with **Mrs. Dharmisthaben Ashokkumar Thakkar (“PAC1”), Mr. Piyushkumar Chandranakthbai Thakkar (“PAC2”), Mr. Raghurambhai Vasramnbhai Thakkar (“PAC3”)** herein after collectively referred to as the Person Acting in Concert (“PACs”) with the Acquirer pursuant to Regulation 18 (7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations 2011, as amended (“SEBI (SAST) Regulations”) in respect of the Open Offer (the “Offer”) to acquire up to 64,88,560 Equity shares of ₹10/- each per Equity shareholders of **Art Nirman Limited (“ANL” or the “Target Company” or “TC”)** representing 26.00% of the fully paid Equity shares capital of the Target Company as of the 10th working day from the tendering period. The Detailed Public Statement (the “DPS”) with respect to the Offer was made on January 07, 2021 in (i) Financial Express (English) (all editions), (ii) Janasatta (Hindi) (all editions) (iii) Financial Express (Regional-Gujarati Edition) and (iv) Mumbai Lakshdeep (Marathi-Mumbai edition). This Pre-Offer Advertisement is being issued in all the newspapers in which the DPS was published. Capitalized terms used but not defined in this Pre-Offer Advertisement shall have the meanings assigned to such terms in the PA, DPS, Dispatch Advertisement cum Corrigendum to the DPS, Draft Letter of Offer (DLOO) and the Letter of Offer (LOO).

- Offer Price:** The Offer Price of ₹ 22.00 (Rupees Twenty Two only) (inclusive of the interest for the delay in making Public Announcement) per Equity share of ₹ 10/- each is justified in terms of Regulation 8(2) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. Further, As on date, there has been no revision in Offer Price or Offer Size.
- Recommendations of the Committee of Independent Directors: A Committee of Independent Directors of the Target Company has published its recommendation on the Offer on Wednesday, February 17, 2021 in i) Financial Express (English) (all editions), (ii) Janasatta (Hindi) (all editions) (iii